

यहूदा के परिवार समूह से—अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन;

לְיִשָּׁשָׁר לְיִשָּׁשָׁר
के-लिए-इस्साकार
H3485
בֶּן-נַתָּנֵל
पुत्र-नतनेल
H5417
צוּעָר:
सूआर-का
H6686

इस्साकार के परिवार समूह से सूआर का पुत्र नतनेल;

לְיָבוּלָן לְיָבוּלָן
के-लिए-जबूलून
H2074
בֶּן-אֱלִיאָב
पुत्र-एलीआब
H0446
חֶלֶן:
हेलोन-का
H2497

जबूलून के परिवार समूह से—हेलोन का पुत्र एलीआब;

לְבִנְיָן לְבִנְיָן
के-पुत्रों-के-लिए
H3130
יוֹסֵף יוֹסֵף
यूसुफ
H0669
לְאֶפְרַיִם לְאֶפְרַיִם
के-लिए-एफ्रैम
H0476
בֶּן-אֱמִיחֻד
पुत्र-अम्मीहूद-का
H5989
לְמַנְשֶׁה לְמַנְשֶׁה
के-लिए-मनश्शे
H1583
בֶּן-גַּמְלִיֵּאל
पुत्र-गमलीएल

פְּדָה צוּר:
पदासूर-का
H6301

यूसुफ के वंश से, एफ्रैम के परिवार समूह से—अम्मीहूद का पुत्र एफ्रैम; मनश्शे के परिवार समूह से—पदासूर का पुत्र गमलीएल;

לְבִנְיָמִן לְבִנְיָמִן
के-लिए-बिन्यामीन
H1144
בֶּן-אָבִיבָן
पुत्र-अबीदान
H0027
גִּידְוֹנִי:
गिदोनी-का
H1441

बिन्यामीन के परिवार समूह से—गिदोनी का पुत्र अबीदान;

לְדָן לְדָן
के-लिए-दान
H1835
בֶּן-אֲחִיעֶזֶר
पुत्र-अहीएजेर
H0295
עַמִּישָׁדָי:
अम्मीशद्वै-का
H5996

दान के परिवार समूह से—अम्मीशद्वै का पुत्र अहीएजेर;

לְאֲשֶׁר לְאֲשֶׁר
के-लिए-आशेर
H0836
בֶּן-פַּגִּיעָל
पुत्र-पगीएल
H6295
עֲכָרָן:
ओक्रान-का
H5918

आशेर के परिवार समूह से—ओक्रान का पुत्र पगीएल;

לְגָד לְגָד
के-लिए-गाद
H1410
בֶּן-אֶלְיָסָפ
पुत्र-एल्यासाप
H0460
דְּעוּאֵל:
दूएल-का
H1845

गाद के परिवार समूह से दूएल का पुत्र एल्यासाप;

לְנַפְתָּלִי לְנַפְתָּלִי
के-लिए-नफ्ताली
H5321
בֶּן-אֲחִירָע
पुत्र-अहीरा
H0299
עִנָּן:
एनान-का
H5881

नफ्ताली के परिवार समूह से—एनाम का पुत्र अहीरा;

אֶלְהָה אֶלְהָה
ये
H0428
[קְרִיאִין] [קְרִיאִין]
[बुलाए-गए]
H7148
(קְרוּאִין) (קְרוּאִין)
(बुलाए-गए)
H7121
הַעֲדָה הַעֲדָה
मण्डली-के
H5712
נְשִׂאִי נְשִׂאִי
प्रधान
H4294
מִטּוֹת מִטּוֹת
गोत्रों-के
H0001
אָבוֹתָם אָבוֹתָם
उनके-पूर्वजों-के
H0505
רָאשֵׁי רָאשֵׁי
मुखिया
H3478
אֲלָפִי אֲלָפִי
हजारों-के
H3478
יִשְׂרָאֵל יִשְׂרָאֵל
इस्राएल-के

הָם:
वे
H1992

ये सभी व्यक्ति अपने लोगों द्वारा अपने परिवार समूह के नेता चुने गए। ये लोग अपने परिवार समूह के नेता हैं।

מִשְׁפָּחַתָּם	וַיִּקְרָא	מֹשֶׁה	וְאַהֲרֹן	אֶת	הָאֲנָשִׁים	הָאֵלֶּה	אֲשֶׁר	נָקְבוּ	בְּשֵׁמוֹת:	17
उनके-कुलों-के	और-लिया	मूसा-ने	और-हारून-ने	को-	पुरुषों	इन-	जो	नाम-लिए-गए	नामों-से	
H4940	H3947	H4872	H0175	H0853	H0376	H0428			H8034	

मूसा और हारून ने इन व्यक्तियों (और इस्राएल के लोगों) को एक साथ लिया जो नेता होने के लिये आये थे।

וְאֵת	כָּל-	הָעֵדָה	הַקְּהִילוּ	בְּאֶחָד	לְחֹדֶשׁ	הַשָּׁנִי	וַיִּתְּלוּ	עָלָיו	מִשְׁפָּחָתָם	18
और-को-	सारी-	मण्डली	इकट्ठा-किया	में-एक	के-महीने	दूसरे-में	और-वंशावली-लिखाई	पर-	उनके-कुलों-के	
H0853	H3605	H5712	H6950	H0259	H2320	H8145	H3205		H4940	
לְבֵית	אֲבֹתָם	בְּמִסְפָּר	שְׁמוֹת	מִבְּנֵי	עֶשְׂרִים	שָׁנָה	וּמַעֲלָה	לְגִלְגָּלְתָּם:		
के-घराने	उनके-पूर्वजों-के	के-अनुसार-गिनती	नामों-की	से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	उनके-प्रति-व्यक्ति		
	H0001	H4557	H8034	H0342	H6242	H8141	H4605	H1538		

मूसा और हारून ने इस्राएल के सभी लोगों को बुलाया। तब लोगों की सूची उनके परिवार और परिवार समूह के अनुसार बनी। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की सूची बनी।

כְּאִשֶּׁר	צִוָּה	יְהוָה	אֶת-	מֹשֶׁה	וַיִּפְקְדֵם	בְּמִדְבָּר	סִינַי:	פ		19
जैसा	आज्ञा-दी	यहोवा-ने	को-	मूसा	और-गिना	में-जंगल	सीनै-के	१।		
	H6680	H3068	H0853	H4872			H5514			

मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा यहोवा का आदेश था। मूसा ने लोगों को तब गिना जब वे सीनै की मरुभूमि में थे।

וַיְהִי	בְנֵי-	רְאוּבֵן	בְּכֹר	יִשְׂרָאֵל	תּוֹלְדֹתָם	לְמִשְׁפָּחָתָם	לְבֵית	אֲבֹתָם		20
और-थे	पुत्र-	रूबेन-के	पहलौठा	इस्राएल-का	उनकी-वंशावली	उनके-कुलों-के-अनुसार	के-घराने	उनके-पूर्वजों-के		
H1961	H7205	H1060	H3478	H8435	H4940		H0001			
בְּמִסְפָּר	שְׁמוֹת	לְגִלְגָּלְתָּם	כָּל-	זָכָר	מִבְּנֵי	עֶשְׂרִים	שָׁנָה	וּמַעֲלָה	כָּל	
के-अनुसार-गिनती	नामों-की	उनके-प्रति-व्यक्ति	हर-	पुरुष	से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	
	H8034	H1538	H3605	H2145	H6242	H8141	H4605	H3605		

צָבָא :
सेना-में
יָצָא :
निकलने-वाला
[H3318](#)

रूबेन के परिवार समूह को गिना गया। (रूबेन इस्राएल का पहलौठा पुत्र था।) उन सभी पुरुषों की सूची बनी जो बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे और सेना में सेवा करने योग्य थे। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פְּקָדֵיהֶם	לְמִטָּה	רְאוּבֵן	שֵׁשׁ	וְאַרְבָּעִים	אֶלֶף	וַחֲמִשָּׁ	מֵאוֹת:	פ		21
उनकी-गिनती	के-गोत्र	रूबेन-के	छह	और-चालीस	हजार	और-पाँच	सौ	१।		
	H4294	H7205	H8337	H0705	H0505	H2568	H3967			

रूबेन के परिवार समूह से गिने गए पुरुषों की संख्या छियालीस हजार पाँच सौ थी।

לְבֵנֵי	שְׁמֵעוֹן	תּוֹלְדֹתָם	לְמִשְׁפָּחָתָם	לְבֵית	אֲבֹתָם	פְּקָדֵי				22
के-पुत्रों-के-लिए	शिमीन	उनकी-वंशावली	उनके-कुलों-के-अनुसार	के-घराने	उनके-पूर्वजों-के	उनकी-गिनती				
	H8095	H8435	H4940		H0001					
בְּמִסְפָּר	שְׁמוֹת	לְגִלְגָּלְתָּם	כָּל-	זָכָר	מִבְּנֵי	עֶשְׂרִים	שָׁנָה	וּמַעֲלָה	כָּל	
के-अनुसार-गिनती	नामों-की	उनके-प्रति-व्यक्ति	हर-	पुरुष	से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	
	H8034	H1538	H3605	H2145	H6242	H8141	H4605	H3605		

צָבָא :
सेना-में
יָצָא :
निकलने-वाला
[H3318](#)

शिमीन के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מאות :	ושלש	אלף	וחמשים	תשעה	שמעון	למטה	פקדיהם	23
¶	सौ	और-तीन	हजार	और-पचास	नौ	शिमोन-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H7969	H0505	H2572	H8672	H8095	H4294		

शिमोन के परिवार समूह को गिनने पर सारे पुरुषों की संख्या उनसठ हजार तीन सौ थी।

שמות	במספר	אבתם	לביית	למשפחתם	תולדתם	גד	לבני	24
नामों-की	के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	गाद	के-पुत्रों-के-लिए	
H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H1410		

מבין	עשרים	שנה	ומעלה	כל	יצא	צבא :
से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	निकलने-वाला	सेना-में
	H6242	H8141	H4605	H3605	H3318	

गाद के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	וחמשים :	מאות	ושש	אלף	וארבעים	חמש	גד	למטה	פקדיהם	25
¶	और-पचास	सौ	और-छह	हजार	और-चालीस	पांच	गाद-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H2572	H3967	H8337	H0505	H0705	H2568	H1410	H4294		

गाद के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या पैंतालीस हजार छः सौ पचास थी।

במספר	אבתם	לביית	למשפחתם	תולדתם	יהודה	לבני	26
के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	यहूदा	के-पुत्रों-के-लिए	
H4557	H0001		H4940	H8435	H3063		

שמות	מבין	עשרים	שנה	ומעלה	כל	יצא	צבא :
नामों-की	से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	निकलने-वाला	सेना-में
H8034		H6242	H8141	H4605	H3605	H3318	

यहूदा के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מאות :	ושש	אלף	ושבעים	ארבעה	יהודה	למטה	פקדיהם	27
¶	सौ	और-छह	हजार	और-सत्तर	चार	यहूदा-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H8337	H0505	H7657	H0702	H3063	H4294		

यहूदा के परिवार समूह को गिनने पर सारी संख्या चौहत्तर हजार छः सौ थी।

במספר	אבתם	לביית	למשפחתם	תולדתם	יששכר	לבני	28
के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	इस्साकार	के-पुत्रों-के-लिए	
H4557	H0001		H4940	H8435	H3485		

שמות	מבין	עשרים	שנה	ומעלה	כל	יצא	צבא :
नामों-की	से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	निकलने-वाला	सेना-में
H8034		H6242	H8141	H4605	H3605	H3318	

इस्साकार के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מאות :	וארבע	אלף	וחמשים	ארבעה	יששכר	למטה	פקדיהם	29
¶	सौ	और-चार	हजार	और-पचास	चार	इस्साकार-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H0702	H0505	H2572	H0702	H3485	H4294		

इस्साकार के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या चौवन हजार चार सौ थी।

שְׁמוֹת	בְּמִסְפָּר	אַבְתָּם	לְבַיִת	לְמִשְׁפַּחְתָּם	תּוֹלְדֹתָם	זְבוּלָן	לְבִנֵי	30
नामों-की	के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	जबूलून	के-पुत्रों-के-लिए	
H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H2074		

זָבָא:	יָצָא	כָּל	וּמַעְלָה	שָׁנָה	עֶשְׂרִים	מִבְּן
सेना-में	निकलने-वाला	हर	और-ऊपर	वर्ष	बीस	से-पुत्र
	H3318	H3605	H4605	H8141	H6242	

जबूलून के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מֵאוֹת:	וְאַרְבַּע	אֲלֶף	וּחֲמִשִּׁים	שִׁבְעָה	זְבוּלָן	לְמִטָּה	פְּקָדֵיהֶם	31
१	सौ	और-चार	हजार	और-पचास	सात	जबूलून-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H0702	H0505	H2572	H7651	H2074	H4294		

जबूलून के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या सत्तावन हजार चार सौ थी।

אַבְתָּם	לְבַיִת	לְמִשְׁפַּחְתָּם	תּוֹלְדֹתָם	אַפְרָיִם	לְבִנֵי	יוֹסֵף	לְבִנֵי	32
उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	एफ्रेम	के-पुत्रों-के-लिए	यूसुफ	के-पुत्रों-के-लिए	
H0001		H4940	H8435	H0669		H3130		

זָבָא:	יָצָא	כָּל	וּמַעְלָה	שָׁנָה	עֶשְׂרִים	מִבְּן	שְׁמוֹת	בְּמִסְפָּר
सेना-में	निकलने-वाला	हर	और-ऊपर	वर्ष	बीस	से-पुत्र	नामों-की	के-अनुसार-गिनती
	H3318	H3605	H4605	H8141	H6242		H8034	H4557

एफ्रेम के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מֵאוֹת:	וּחֲמִשָּׁ	אֲלֶף	אַרְבָּעִים	אַפְרָיִם	לְמִטָּה	פְּקָדֵיהֶם	33
१	सौ	और-पाँच	हजार	चालीस	एफ्रेम-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H2568	H0505	H0705	H0669	H4294		

एफ्रेम के परिवार समूह को गिनने पर सारी संख्या चालीस हजार पाँच सौ थी।

שְׁמוֹת	בְּמִסְפָּר	אַבְתָּם	לְבַיִת	לְמִשְׁפַּחְתָּם	תּוֹלְדֹתָם	מְנַשֶּׁה	לְבִנֵי	34
नामों-की	के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	मनश्शे	के-पुत्रों-के-लिए	
H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H4519		

זָבָא:	יָצָא	כָּל	וּמַעְלָה	שָׁנָה	עֶשְׂרִים	מִבְּן	שְׁמוֹת
सेना-में	निकलने-वाला	हर	और-ऊपर	वर्ष	बीस	से-पुत्र	नामों-की
	H3318	H3605	H4605	H8141	H6242		H8034

मनश्शे के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	וּמֵאוֹתֵים:	אֲלֶף	וּשְׁלֹשִׁים	שְׁנַיִם	מְנַשֶּׁה	לְמִטָּה	פְּקָדֵיהֶם	35
१	और-दो-सौ	हजार	और-तीस	दो	मनश्शे-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H0505	H7970	H8147	H4519	H4294		

मनश्शे के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या बत्तीस हजार दो सौ थी।

בְּמִסְפָּר	אַבְתָּם	לְבַיִת	לְמִשְׁפַּחְתָּם	תּוֹלְדֹתָם	בְּנִימִן	לְבִנֵי	36
के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	बिन्यामीन	के-पुत्रों-के-लिए	
H4557	H0001		H4940	H8435	H1144		

זָבָא:	יָצָא	כָּל	וּמַעְלָה	שָׁנָה	עֶשְׂרִים	מִבְּן	שְׁמוֹת
सेना-में	निकलने-वाला	हर	और-ऊपर	वर्ष	बीस	से-पुत्र	नामों-की
	H3318	H3605	H4605	H8141	H6242		H8034

बिन्यामीन के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מאות:	וארבע	אלף	ושלשים	חמשה	בנימין	למטה	פקדיהם	37
¶	सौ	और-चार	हजार	और-तीस	पाँच	बिन्यामीन-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H0702	H0505	H7970	H2568	H1144	H4294		

बिन्यामीन के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या पैंतीस हजार चार सौ थी।

שמות	במספר	אבתם	לביית	למשפחתם	תולדתם	וְ	לבני	38
नामों-की	के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	दान	के-पुत्रों-के-लिए	
H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H1835		

מִן	עשרים	שנה	וּמַעְלָה	כָּל	יָצָא	צָבָא:	
से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	निकलने-वाला	सेना-में	
	H6242	H8141	H4605	H3605	H3318		

दान के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מאות:	ושבע	אלף	וששים	שנים	דן	למטה	פקדיהם	39
¶	सौ	और-सात	हजार	और-साठ	दो	दान-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H7651	H0505	H8346	H8147	H1835	H4294		

दान के परिवार समूह को गिनने पर सारी संख्या बासठ हजार सात सौ थी।

שמות	במספר	אבתם	לביית	למשפחתם	תולדתם	אשר	לבני	40
नामों-की	के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	आशर	के-पुत्रों-के-लिए	
H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H0836		

מִן	עשרים	שנה	וּמַעְלָה	כָּל	יָצָא	צָבָא:	
से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	निकलने-वाला	सेना-में	
	H6242	H8141	H4605	H3605	H3318		

आशर के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुषों के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מאות:	וחמש	אלף	וארבעים	אחד	אשר	למטה	פקדיהם	41
¶	सौ	और-पाँच	हजार	और-चालीस	एक	आशर-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H2568	H0505	H0705	H0259	H0836	H4294		

आशर के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या एकतालीस हजार पाँच सौ थी।

שמות	במספר	אבתם	לביית	למשפחתם	תולדתם	נפתלי	בני	42
नामों-की	के-अनुसार-गिनती	उनके-पूर्वजों-के	के-घराने	उनके-कुलों-के-अनुसार	उनकी-वंशावली	नप्ताली-के	पुत्र	
H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H5321		

מִן	עשרים	שנה	וּמַעְלָה	כָּל	יָצָא	צָבָא:	
से-पुत्र	बीस	वर्ष	और-ऊपर	हर	निकलने-वाला	सेना-में	
	H6242	H8141	H4605	H3605	H3318		

नप्ताली के परिवार समूह को गिना गया। बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य सभी पुरुष के नामों की सूची बनी। उनकी सूची उनके परिवार और उनके परिवार समूह के साथ बनी।

פ	מאות:	וארבע	אלף	וחמשים	שלשה	נפתלי	למטה	פקדיהם	43
¶	सौ	और-चार	हजार	और-पचास	तीन	नप्ताली-के	के-गोत्र	उनकी-गिनती	
	H3967	H0702	H0505	H2572	H7969	H5321	H4294		

नप्ताली के परिवार समूह को गिनने पर पुरुषों की सारी संख्या तिरपन हजार चार सौ थी।

44 אֵלֶּה הַפְּקָדִים אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְנִשְׂאֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנַיִם עָשָׂר אִישׁ
ये गिने-गए जिन्हें गिना मूसा-ने और-हारून-ने और-प्रधानों-ने इस्त्राएल-के बारह दस पुरुष
H0428 H4872 H0175 H3478 H8147 H6240 H0376

אִישׁ אֶחָד לְבֵית-אֲבֹתָיו הָיוּ:
पुरुष-एक के-घराने-के-पूर्वजों-के थे
H0259 H0001 H1961

मूसा, हारून और इस्त्राएल के नेताओं ने इन सभी पुरुषों को गिना। वहाँ बारह नेता थे। (हर परिवार समूह से एक नेता था।)

45 וַיְהִי וְגַם כָּל-פְּקֻדֵי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל לְבֵית-אֲבֹתָם מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְזָמְעָה
और-थे और-सब-गिने-गए पुत्र-इस्त्राएल-के के-घराने के-उन्के-पूर्वजों-के से-पुत्र बीस वर्ष और-ऊपर
H1961 H3605 H3478 H0001 H2568 H8141 H4605

כָּל-יָצֵא צְבָא בְּיִשְׂרָאֵל:
हर-निकलने-वाला सेना-में में-इस्त्राएल
H3318 H3478 H3605

इस्त्राएल का हर एक पुरुष जो बीस वर्ष या उससे अधिक उम्र और सेना में सेवा करने योग्य था, गिना गया। इन पुरुषों की सूची उनके परिवार समूह के साथ बनी।

46 וַיְהִי וְגַם כָּל-הַפְּקָדִים שֵׁשׁ-מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשָׁת אֲלָפִים וַחֲמִשָּׁים
और-थे और-सब-गिने-गए छह-सौ हजार और-तीन हजार और-पचास
H1961 H3605 H8337 H3967 H0505 H7969 H0505 H2568 H3967 H2572

पुरुषों की सारी संख्या छः लाख तीन हजार पाँच सौ पचास थी।

47 וְהַלְוִיִּם וְהַמְטָה לְמִטָּה אֲבֹתָם לֹא הָתַפְּקֵדוּ בְּתוֹכָם:
और-लेवीय और-गोत्र के-गोत्र के-पूर्वजों-के उनके-पूर्वजों-के उनके-बीच
H3881 H4294 H0001 H3808 H8432

लेवी के परिवार समूह से परिवारों की सूची इस्त्राएल के अन्य पुरुषों के साथ नहीं बनी।

48 וַיְדַבֵּר וַיְהוּא אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
और-बोला यहोवा से-मूसा कहते-हुए
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा था:

49 אָדָּם אֶת-מִטָּה לְוִי-לֵא מֵת לֹא תִשָּׂא בְּתוּךָ בְּנֵי
केवल को-गोत्र के-लेवी-के मत मूसा के-बीच के-उठाना के-पुत्रों-के
H0389 H0853 H4294 H3878 H3808 H5375 H8432 H3808

יִשְׂרָאֵל:
इस्त्राएल-के
H3478

“लेवी के परिवार समूह के पुरुषों को तुम्हें नहीं गिनना चाहिए। इस्त्राएल के अन्य पुरुषों के एक भाग के रूप में उनकी संख्या को मत जोड़ो।

50 וְאֵתָּה וְהַפְּקֵד אֶת-הַלְוִיִּם עַל-מִשְׁכַּן הָעֵדוּת וְעַל-כָּל-וְעַל-כָּל-כְּלִי
और-तू और-ठहरा को-लेवीयों पर-निवास का-साक्षी-पर-सब-उसके-बर्तनों और-पर-सब-उसके-बर्तनों
H3605 H0853 H3881 H4908 H5715 H3605 H3627 H3605

וְאֶת-הַמִּשְׁכָּן אֶת-יִשְׂרָאֵל לִי וְהָמָּה וְאֶת-כָּל-כְּלִי וְהָם
को-उठाएंगे वे उसका-है जो-निवास को-उठाएंगे और-को-सब-उसके-बर्तनों और-वे
H0853 H5375 H1992 H3605 H0853 H4908 H8334 H1992 H3627

וְסָבִיב וְלְמִשְׁכָּן יִחְנוּ:
और-चारों-ओर के-निवास डेरा-डालेंगे
H5439 H4908 H2583

लेवीवंश के पुरुषों से कहो कि वे साक्षीपत्र के पवित्र तम्बू के लिए उत्तरदायी हैं। वे उसकी और उसमें जो चीजें हैं, उनकी देखभाल करेंगे। वे मिलापवाले तम्बू और उसकी सभी चीजें लेकर चलेंगे। वे अपना डेरा उसके चारों ओर डालेंगे तथा उसकी देखभाल करेंगे।

51
 הַלְוִיִּם אֹתוֹ יִקְיֶמוּ הַמִּשְׁכָּן וּבְחַנְתָּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם אֹתוֹ יוֹרִידוּ הַמִּשְׁכָּן וּבְנִסְעַ אֹתוֹ
 लेवीय उसे खड़ा-करेंगे निवास-का और-जब-पड़ाव लेवीय उसे उतारेंगे निवास-का और-जब-कूचे
[H3881](#) [H0853](#) [H4908](#) [H2583](#) [H3881](#) [H0853](#) [H3381](#) [H4908](#) [H5265](#)

יּוֹמָתָּ הַקָּרֵב וְהָרָחֵק
 मारा-जाएगा जो-पास-आए और-पराया
[H4191](#) [H7126](#)

जब कभी वह पवित्र तम्बू कहीं ले जाया जाएगा, तो लेवीवंश के पुरुषों को ही उसे उतारना होगा। जब कभी मिलापवाला तम्बू किसी स्थान पर लगाया जाएगा तो लेवीवंश के पुरुषों को ही यह करना होगा। वे ही ऐसे पुरुष हैं जो मिलापवाले तम्बू की देखभाल करते हैं। यदि कोई ऐसा अन्य पुरुष तम्बू के निकट आना चाहता है जो लेवी के परिवार समूह का नहीं है तो वह मार डाला जाएगा।

52
 הַלְוִיִּם אֶל-וְאִישׁ מִחֲנֵהוּ אֶל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל בְּנֵי וְחָנוּ
 अपने-झण्डे पर- और-हर-पुरुष अपने-छावनी पर- हर-पुरुष इस्राएल-के पुत्र और-डेरा-डालेंगे
[H1714](#) [H0376](#) [H4264](#) [H0376](#) [H3478](#) [H2583](#)

לְצַבְאֹתָם
 उनकी-सेनाओं-के-अनुसार

इस्राएल के लोग अपने डेरे अलग-अलग समूहों में लगाएंगे। हर एक व्यक्ति को अपना डेरा अपने परिवार के झण्डे के पास लगाना चाहिए।

53
 בְּנֵי עֲדָת-עַל-קְצָף יְהוּיָה וְלֹא-הָעֵדוּת לְמִשְׁכָּן סָבִיב וְיָחֲנוּ וְהַלְוִיִּם
 पुत्रों-की मण्डली पर- क्रोध होगा और-न-साक्षी-के के-निवास चारों-ओर डेरा-डालेंगे और-लेवीय
[H5712](#) [H1961](#) [H3808](#) [H5715](#) [H4908](#) [H5439](#) [H2583](#) [H3881](#)

הָעֵדוּת: מִשְׁכָּן מִשְׁמֶרֶת אֶת-הַלְוִיִּם וְשָׁמְרוּ וְיִשְׂרָאֵל
 साक्षी-के निवास-का पहरा को- लेवीय और-रखेंगे इस्राएल-के
[H5715](#) [H4908](#) [H4931](#) [H0853](#) [H3881](#) [H8104](#) [H3478](#)

किन्तु लेवी के लोगों को अपना डेरा पवित्र तम्बू के चारों ओर डालना चाहिए। लेवीवंश के लोग साक्षीपत्र के पवित्र तम्बू की रक्षा करेंगे। वे पवित्र तम्बू की रक्षा करेंगे जिससे इस्राएल के लोगों का कुछ भी बुरा नहीं होगा।”

54
 עָשָׂו: כֵּן מֹשֶׁה אֶת-יְהוָה צִוָּה אֲשֶׁר כָּכֹל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי וַיַּעֲשֻׂוּ
 किया वैसे मूसा को- यहोवा-ने आज्ञा-दी जो सब-के-अनुसार इस्राएल-के पुत्रों-ने और-किया
[H4872](#) [H0853](#) [H3068](#) [H6680](#) [H3605](#) [H3478](#)

כ
 १

इसलिए इस्राएल के लोगों ने उन सभी बातों को माना जिसका आदेश यहोवा ने मूसा को दिया था।